

## पूर्व-आंध्रा एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक के लिए यूनियन बैंक का नया IFSC कोड्स

**मुंबई- 5 मार्च, 2021:** पूर्व-आंध्रा एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक की शाखाओं का IFSC कोड बदल दिया गया है. 1 अप्रैल, 2021 से दोनों बैंक की शाखाओं के पुराने IFSC कोड मान्य नहीं होंगे. 1 अप्रैल, 2020 को पूर्व- आंध्रा और पूर्व- कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किया गया. ग्राहकों की खाता संख्या में बिना बदलाव किए दोनों बैंकों के आईटी एकीकरण को पूरा किया गया है, लेकिन IFSC कोड्स बदल दिये गए हैं. पूर्व-आंध्रा एवं पूर्व -कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहक बिना किसी परिवर्तन के उसी खाता संख्या से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, ताकि शाखाओं में लेनदेन को सरल एवं सहज बना रहें.

पूर्व- आंध्रा का IFSC कोड UBIN08 से एवं पूर्व- कॉर्पोरेशन बैंक का IFSC कोड UBI09 से शुरू होगा एवं ग्राहक को परिवर्तित IFSC एवं MICR कोड की सुविधा के साथ नई चेक बुक प्राप्त करनी होगी. नए IFSC कोड प्राप्त करने के लिए ग्राहक मोबाइल नंबर 09223008486 पर “IFSC<OLD IFSC>” SMS कर सकते हैं या ग्राहक सेवा 1800-208-2244/1800-425-1515/1800-425-3555 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे वैबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)> समामेलित केंद्र में जाएं या अपनी शाखा में संपर्क करें.

यूनियन बैंक का ग्राहकों से अनुरोध है कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों में अपना IFSC कोड अपडेट कराएं एवं अपने विप्रेषक को नए IFSC से अवगत कराएं. साथ ही बैंक ग्राहकों से यह भी अनुरोध करता है कि वे अपनी शाखा से नया चेक बुक प्रपट करें अथवा मोबाइल एप्प, नेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से आवेदन करें.

\*\*\*\*\*